

B.A. / B.sc I, II & III Year (Economics)

- बी. ए. प्रथम वर्ष
B.A. I Year
2019-2020
B.A. I Year
- अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र- व्यक्ति अर्थशास्त्र (नियमित 40/ स्वाध्यायी 50)
 - Economics First Paper – Micro Economics (Regular 40/ Private 50)
 - अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र – भारतीय अर्थव्यवस्था (नियमित 40/ स्वाध्यायी 50)
 - Economics Second Paper – Indian Economy (Regular 40/ Private 50)
- बी. ए. द्वितीय वर्ष
B.A. II Year
2020-2021
B.A. II Year
- अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र- समष्टि अर्थशास्त्र (नियमित 40/ स्वाध्यायी 50)
 - Economics First Paper – Macro Economics (Regular 40/ Private 50)
 - अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र – सार्वजनिक एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र (नियमित 40/ स्वाध्यायी 50)
 - Economics Second Paper – Public Finance & International Economics (Regular 40/ Private 50)
- बी. ए. तृतीय वर्ष
B.A. III Year
2021-2022
B.A. III Year
- अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र- विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र (नियमित 40/ स्वाध्यायी 50)
 - Economics First Paper – Development & Environment Economics (Regular 40/ Private 50)
 - अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र – सांख्यिकी (नियमित 40/ स्वाध्यायी 50)
 - Economics Second Paper – Statistics (Regular 40/ Private 50)

परीक्षा अंक योजना

Examination Marking Scheme

नियमित विद्यार्थियों के लिये 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन (10 अंक त्रैमासिक एवं 10 अंक छःमाही) प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 का अंक विभाजन खण्ड 'अ' वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 x 1 = 5 खण्ड 'ब' लघुउत्तरीय प्रश्न 5 x 2 = 10 खण्ड 'स' दीर्घउत्तरीय प्रश्न 5 x 5 = 25 Internal Assessment for regular Students is 20 Marks (10 Marks for Quarterly and 10 for Half yearly Assessment) Marks Division of 40 Marks for Each Question Paper is as Bellow : Section 'A' – Objective Questions 5X1 = 5 Section 'B' – Short Answer Questions 5X2 = 10 Section 'C' – Long Answer Questions 5X5 = 25	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 अंक का विभाजन खण्ड 'अ' वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 x 1 = 5 खण्ड 'ब' लघुउत्तरीय प्रश्न 5 x 3 = 15 खण्ड 'स' दीर्घउत्तरीय प्रश्न 5 x 6 = 30 Marks Division of 50 Marks for Each Question Paper is as Bellow : Section 'A' – Objective Questions 5X1 = 5 Section 'B' – Short Answer Questions 5X3 = 15 Section 'C' – Long Answer Questions 5X6 = 30
---	--

1) [Signature]
04/06/2019
(Dr. V. K. Tripathi)

3) [Signature]
(Dr. R. I. Shrivastava)

5) [Signature]
(Dr. Arunakumar)

7) [Signature]
4.6.19
(Dr. Sharda Shrivastava)

2) [Signature]
(N. G. Pandey)

4) [Signature]
4/6/19
Prof. Lekha Acharya

6) [Signature]
(Dr. Rashmi Chugh)

8) [Signature]
4/6/19
Dr. Meera Patil

9) [Signature]
4/6/19
(Dr. S. S. Gupta)



Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Under Graduate yearly Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the
Governor M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन
स्नातक स्तर वार्षिक पद्धति के अंतर्गत एकल प्रश्न पत्र प्रणाली अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म०प्र० के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Class / कक्षा – B.A. / B.sc I Year
Session / सत्र – (2019-2020)

Subject/ विषय – Economics/ अर्थशास्त्र

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार स्नातक पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली के
तहत केन्द्रीय अध्ययन मंडल से अनुशंसित और मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Title of Subject Group : Micro Economics.

Paper -I

विषय समूह का शीर्षक : व्यक्ति अर्थशास्त्र

प्रश्न पत्र – I

नियमित छात्रों हेतु- Max.Marks/अधिकतम अंक : 40

CCE - (आंतरिक मूल्यांकन) 10

स्वाध्यायी छात्रों हेतु- Max.Marks/अधिकतम अंक : 50

Micro Economics व्यक्ति अर्थशास्त्र

Unit I – Definition, scope and nature of economics, Positive and Normative Economics, Methods of economic analysis – Inductive and Deductive, Basic Concepts :-Micro Economics, Utility, Demand, Supply, Commodity, Public goods Private goods and Merit goods Value and Price, Market Administered Price

इकाई 1: अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति, सकारात्मक एवं (मानक) आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियां आगमन एवं निगमन विधि, व्यक्ति अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं, उपयोगिता, मांग, पूर्ति, सार्वजनिक वस्तुये, निजी वस्तुये एवं उत्कृष्ट वस्तुये, मूल्य एवं कीमत, बाजार प्रशासित मूल्य।

Unit II – Law of demand and its exceptions, Giffen goods, Elasticity of demand; Price, Income and Cross Elasticity Law of Supply, Law of diminishing marginal utility and Law of Equi Marginal Utility, Indifference curves-characteristics and consumers equilibriums. Consumer's Surplus.

इकाई 2: मांग का नियम और इसके अपवाद, गिफिन वस्तुएं, मांग की लोच: कीमत, आय और आड़ी लोच, पूर्ति का नियम, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, तटस्थता वक- विशेषताएं और उपभोक्ता का संतुलन उपभोक्ता की बचत।

Unit III – Production- Law of Variable Proportions, Returns to Scale, Economies of Scale, Iso Product curves, characteristics and producer's equilibrium, Concepts of Cost and Revenue- Total, Marginal & Average.



Dr. Rashmi Chaturvedi

Dr. Manish Patel

10/06/19
Dr. R.K. Sharma

refunder
(N.G. Pandey)

Dr. Anura Kumakar
04.6.19

Dr. H.B. Gupta

Dr. Sharda S...

Prof. R. Acharya
14/6/19

इकाई 3: उत्पादन- परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पैमाने के प्रतिफल, पैमाने की बचत, समोत्पादक: विशेषताएं एवं उत्पादक का संतुलन, लागत एवं आगम की अवधारणाएं: कुल, सीमांत एवं औसत।

Unit IV- Market : Meaning and Type of markets. Price and Output Determination for Firm and Industry under Perfect Competition, Monopoly and Monopolistic Competition.

इकाई 4: बाजार का अर्थ एवं बाजार के प्रकार, फर्म एवं उद्योग के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण : पूर्ण-प्रतियोगिता एकाधिकार एवं एकाधिकृत प्रतियोगिता।

Unit V - Factor Price Determination, Marginal Productivity Theory, Modern theories of Wages, Interest, Profit and Rent, General Introduction to Welfare Economics.

इकाई 5: साधन कीमत निर्धारण : सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, लगान मजदूरी, ब्याज एवं लाभ के आधुनिक सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय।

Recommended Books :

Ahuja H L : Advance Economic Theory

Jain K P : Advance Economic Theory

Seth M L : Micro Economics

सेठ एम एल - माइक्रो अर्थशास्त्र

Jhingan M L : Modern Micro Economics

झिंंगन एम एल - आधुनिक व्यक्ति अर्थशास्त्र

सिन्हा वी सी - माइक्रो अर्थशास्त्र

Stonier & Hague - Text Book of Modern Economic Theory.

Varian H R - Micro Economics-Modern Approach

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के नवीनतम प्रकाशन

[Signature]
04/06/19
(Dr. A. K. Tripathi)

[Signature]
(W. G. Pandey) dt. H. B. Gupta
Prof. Rekha Acharya

[Signature]
(Dr. Anurag Kumar) dt. 4.6.19
Dr. Manisha Pathak

[Signature]
(Dr. R. K. Sharma)

[Signature]
4.6.19
(Dr. Shashi Chaturvedi)



[Signature]
Dr. Shashi Chaturvedi

(4)

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Under Graduate yearly Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the
Governor M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन
स्नातक स्तर वार्षिक पद्धति के अंतर्गत एकल प्रश्न पत्र प्रणाली अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म०प्र० के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Class / कक्षा - B.A. / B.sc I Year
Session / सत्र - (2019-2020)

Subject/ विषय - Economics/ अर्थशास्त्र

Title of Subject Group : Indian Economy Paper -II
विषय समूह का शीर्षक : भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्न पत्र -II
नियमित छात्रों हेतु- Max.Marks/अधिकतम अंक : 40 CCE - (आंतरिक मूल्यांकन) 10
स्वाध्यायी छात्रों हेतु- Max.Marks/अधिकतम अंक : 50

Paper II
Indian Economy भारतीय अर्थव्यवस्था

Unit I - Basic Structure of Indian economy, Natural Resources:-land , water, forest and mineral resources. Demographic Features: Population, size and distribution, sex, rural-urban classification,

इकाई 1: भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना- प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन एवं खनिज। जनसांख्यिकी विशेषताएं : जनसंख्या आकार एवं वितरण, लिंग, ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण।

Unit II - Agriculture: Nature and Importance, Land Use Pattern, Changes in Cropping Pattern of Madhya Pradesh, Land reforms and Crop Insurance, Trends in Agriculture Production and Productivity , Green revolution, Agriculture Marketing and Mechanisation.

इकाई 2: कृषि-प्रकृति और महत्व, भू उपयोग पद्धति, भूमि सुधार एवं फसल बीमा, मध्यप्रदेश की फसल पैदायिता में परिवर्तन, कृषि उत्पाद और उत्पादकता की प्रवृत्ति, हरित क्रांति, कृषि विपणन एवं यंत्रिकरण।

Unit III -New Industrial Policy of 1991 and changes there in, Role of Public Sector and Private Sector in industrialization, Public-Private Partnership. Industrial Policy of Madhya Pradesh. Concepts of small scale industries (SSI) and cottage industries, problems and prospects of SSI in Indian economy. Start Up India and Make In India.

इकाई 3: 1991 की नई औद्योगिक नीति और उसमें परिवर्तन, औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की भूमिका, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की साझेदारी, मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीति, लघु एवं कुटीर उद्योगों की अवधारणा, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की समस्याएं और संभावनाएं। स्टार्ट अप इण्डिया एवं मेक इन इण्डिया।



Chauhan
Dr. Rashmi Chauhan

Mishra
4/6/19
Dr. Manish Patil
04/06/19
(Dr. Manish Patil)

W. G. ...
Dr. R. K. Sharma
(Dr. R. K. Sharma)

Prof. Rekha Acharya
4/6/19
4.6.19
(Dr. Shandiswari)

Unit IV-Infrastructure of Indian Economy and Foreign Trade :- Power, Transportation and Communication. India's foreign Trade:- composition and direction, Balance of Payment, Role of Foreign Direct Investment and Multinational Corporation.

इकाई 4: भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना एवं विदेशी व्यापार – शक्ति, परिवहन और संचार। भारत का विदेशी व्यापार – संरचना और दिशा। भुगतान संतुलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका एवं बहुराष्ट्रीय निगम।

Unit V – Planning in India:- objectives, strategy, achievements and failure, NITI Ayog, Problems of Indian Economy-Poverty, Unemployment, Regional disparities.

इकाई 5: भारत में नियोजन उद्देश्य, ब्यूह रचना, सफलताएं एवं विफलताएं, नीति (NITI) आयोग, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं— निर्धनता, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमताएं।

Recommended Books :

Indian Economy : Dutt & Sundaram

भारतीय अर्थव्यवस्था : दत्त एवं सुंदरम

भारतीय अर्थव्यवस्था : मिश्रा एवं पुरी

भारतीय अर्थव्यवस्था : ए एन अग्रवाल

भारतीय अर्थव्यवस्था : ए के घोष

Indian Economy : A K Ghosh

Indian Economy : Uma Kapila

भारतीय अर्थव्यवस्था : पी डी महेश्वरी

भारतीय अर्थव्यवस्था : जे.सी. पंत

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के नवीनतम प्रकाशन

[Signature]
04/06/19
(Dr. A. K. Tripathi)

[Signature]
(Dr. R. K. Sharma)

[Signature]
(Dr. Rashmi Chaturvedi)

[Signature]
4.6.19
(Dr. Anurag Kusumakar)

[Signature]
Dr. H. B. Gupta

[Signature]
4.6.19
(Dr. Shashi Sharma)

[Signature]
4/6/19
Prof. Rekha Acharya

[Signature]
4/6/19
(Dr. Manisha Pathak)



Department of Higher Education, Govt. of M. P. Under Graduate Unified Syllabus for B.A.
Three Year Degree Course as recommended by Central Board of Studies and approved by the
Governor of M. P.

उच्च शिक्षा विभाग म० प्र० शासन

स्नातक स्तर की बी० ए० उपाधि के एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अध्ययन मण्डल
द्वारा अनुशंसित तथा म० प्र० के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र 2019-20 से प्रभावशील


Note: The syllabus of B.A. Part-I consists of two theory papers of 40 marks each and there will be 20 marks for the Internal Assessment. Out of the 20 marks allocated for the Internal Assessment, 10 marks will be given after three month and 10 marks will be given after six month of the course.

Subject : English Literature
Class : B.A. Part- I
Paper : I
Title : Poetry
Maximum Marks : 40

The scheme of examination and the allotment of marks shall be as under:-

Section A	Objective Type Questions (At least one question to be set from each unit)	1X5 = 5 Marks
Section B	Short Answer Type Questions (Annotations) (Ten questions (Minimum two from each unit) to be set from Unit II, III, IV & V and five to be attempted)	2X5 = 10 Marks
Section C	Long Answer Type Questions (Ten questions (two from each unit) to be set from unit I, II, III, IV & V and five to be attempted .	5X5 = 25 Marks
TOTAL		40 Marks

Unit-I	Metaphysical Poetry, Epic Poetry, Satire Poetry, The Romantic Movement	
Unit-II	John Donne	: Canonization Death be not Proud The Good Morrow The Relic
Unit-III	John Milton	: Paradise Lost- Book I- First to 250 Lines
Unit-IV	Alexander Pope	: The Rape of the Lock



Alok
03/06/2019
(Prof. Alok Chandra)

(Dr. Vikas Jagtap)

Dr. Vikas Jagtap
3.6.19
Dr. A.C. D. Thar

Dr. Anshu Sancheti
3/6/19
Dr. MS. Bhavaji Bhanu

Unit-V	William Wordsworth : Ode on Intimations of Immortality, Tintern Abbey
--------	--

BOOKS & REFERENCES

Evans, J. Martin. 'Paradise Lost' and the Genesis Tradition, Oxford, Clarendon Press, 1968

Lewis, C.S. A Preface to Paradise Lost, Oxford: OUP, 1968

Steadman, John M. Epic and Tragic Structure in Paradise Lost, Chicago: University of Chicago Press, 1976

Bennett, John. Five Metaphysical Poets, Cambridge University Press, 1964

B. Prasad, A Background to the study of English Literature, Macmillan

Saintsbury, G. Short History of English Literature, London, J.M. Dent & Sons, 1928

Legouis, E. Short History of English Literature, OUP, 1976

Abrahams M.H., A Glossary of Literary Terms, Bangalore, Prism Books Pvt. Ltd. 1993

Hudson W.H. An outline History of English Literature

J.A. Cuddon: Dictionary of Literary Terms , Penguin Edition.

Daiches David: A Critical History of English Literature, Volume I & II

(Dr. Neeraj Agnihotri)

Jax 03/06/19
(Dr. Vikas Jankar)

Alor 03/06/2019
Prof. Alor Chatterjee

Dr. M.S. Rath
3.6.19

Dr. Ashok Sachdev
3.6.19

Dr. Ms. Bharati Bhan
03/06/19

Dr. Vigneshwar

Dr. Rohit Trivedi
Alor



Department of Higher Education, Govt. of M. P. Under Graduate Unified Syllabus for B.A.
Three Year Degree Course as recommended by Central Board of Studies and approved by the
Governor of M. P.

उच्च शिक्षा विभाग म० प्र० शासन

स्नातक स्तर की बी० ए० उपाधि के एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अध्ययन मण्डल
द्वारा अनुशंसित तथा म० प्र० के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र 2019-20 से प्रभावशील


Note: The syllabus of B.A. Part-I consists of two theory papers of 40 marks each and there will be 20 marks for the Internal Assessment. Out of the 20 marks allocated for the Internal Assessment, 10 marks will be given after three month and 10 marks will be given after six month of the course.

Subject : English Literature
Class : B.A. Part-I
Paper : II
Title : Prose
Maximum Marks : 40

The scheme of examination and the allotment of marks shall be as under:-

Section A	Objective Type Questions (At least one question to be set from each unit)	1X5 = 5 Marks
Section B	Short Answer Type Questions (Annotations) Ten questions (Minimum two from each unit) to be set from Unit II, III, IV & V and five to be attempted.	2X5 = 10 Marks
Section C	Long Answer Type Questions (Ten questions(two from each unit) to be set from unit I, II, III, IV & V and five to be attempted.	5X5 = 25 Marks
TOTAL		40 Marks

Unit-I	Prose and Its Forms
Unit-II	Francis Bacon : Of Studies Of Travel Of Love Of Revenge
Unit-III	Joseph Addison : Sir Roger at Church Sir Roger at Home The Spectator's Account of Himself The Adventures of A Shilling



Dr. Rohit Mishra
Dr. Ashok Sanchelav
3/6/19
Dr. Vikas Jaru (Kor)
03/06/19
Dr. Ms. Bhawanji Bhar
03/06/19
Dr. M.S. Fatha
3.6.19

<p>Unit-IV</p>	<p>Charles Lamb : A Bachelor's Complaint of the Behaviour of Married People All Fools' Day</p> <p>E.V. Lucas : On Finding Things Unbirthday and Other Presents</p>
<p>Unit-V</p>	<p>A.G. Gardiner : On Saying Please H.G. Wells : The Stolen Bacillus</p>

BOOKS & REFERENCES

B. Prasad, A Background to the study of English Literature, Macmillan
 Saintsbury, G. Short History of English Literature, London, J.M. Dent & Sons, 1928
 Legouis, E. Short History of English Literature, OUP, 1976
 Abrahams M.H., A Glossary of Literary Terms, Bangalore, Prism Books Pvt. Ltd. 1993
 Hudson W.H. An Outline History of English Literature
 J.A. Cuddon: Dictionary of Literary Terms , Penguin Edition.
 Daiches David: A Critical History of English Literature, Volume I & II

[Signature]
3-6-19

(Dr. Manoj Agnihotri) 03/06/19
(Dr. Vikas Jaiswal) (Prof. Atok Hansaria) 03/06/2019

Dr. Mrs. Rathore

[Signature]
Vijay Kumar

[Signature] 3/6/19
 Dr. Ashok Sachdev

[Signature]
03/06/19
 Dr. M.S. Bhargava Bhargava

Dr. Rishi Trivedi
[Signature]



17

AS recommended by Central Board of Studies of Computer Application & Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh Session 2017-18 JULY 2017 Onwards

BA I, II, III Computer

Class: B.Sc./BA/BCom (Computer Application)

Paper Code	First Year	Internal			Theory	Total	Practical	Grand Total
		Three Months	Six Months	Total				
CA101	Fundamentals of Computer and PC Software	10	10	20	40	80		100
CA102	Desktop Publishing and Multimedia				40			
CA103P	PRACTICAL						50	50
Second Year								
CA201	Internet and E-Commerce	10	10	20	40	80		100
CA202	Relational Database Management System				40			
CA203P	PRACTICAL						50	50
Third Year								
CA301	Web Designing	10	10	20	40	80		100
CA302	Digital Marketing				40			
CA303P	PRACTICAL						50	50
Grand Total							450	

Remark: (i) Each theory paper contain five objective type question of 1 mark and (ii) Five short answer type question of 2 marks and (iii) Five long answer type question of 5 marks, with internal choice in (ii) and (iii)



Handwritten signatures and names: Abhilasha Kumar, Anuj Hundet, Anand, Dr. Anuj Hundet, Dr. Poojam Singh, Dr. Umesh Singh, Mrs. S. Manik, Rujin Pandey, ADY, Dr. S. K. Singh, Dr. S. K. Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Yearly Syllabus for Undergraduates
As recommended by Central Board of Studies of Computer Application
Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh
Session 2017-18 onwards

B.A/B.Com/B.Sc. (Computer Application) First Year

First Paper

Paper Code - CA -101
Paper Name - Fundamentals of Computer and PC Software

Maximum Marks: 40

Course Objectives:

1. To review the basic concepts and functional knowledge in the field of computer application
2. To expose the students to computer application in the field of Business.

Unit I

Introduction to Computer System: Block diagram, components: mother board, processor, main memory, cache memory, hard disk.

Input devices, Output devices, External storage devices: floppy disk, CD ROM, DVD, USBdrives.

Types of software: System software, Application software.

System software: Operating system. Utility programs: anti-virus, disk cleaning, defragmentation, compression and decompression of files.

Application software: examples of commercial software with brief introduction.

Programming Languages: Low-level Language, Assembly Language, Middle Level Language and High Level Language, Compiler, Interpreter, Assembler, Difference between Compiler & Interpreter.

Unit II

Operating system : Definition, Functions of operating system, CUI, GUI, types of operating systems like Single user, Multi-user, Real time, Time sharing and Batch processing, Multiprocessing, Multiprogramming, Multitasking, Distributed processing. Elementary idea of various common operating system prevalent round the world.

MS Windows: An introduction and its features, desktop, taskbar, files and folders start menu operations, my computer, network neighborhood, recycle-bin, windows explorer, creating, copying, moving and deleting files, setting wall paper, changing the mouse pointer, paint notepad, understanding the OLE features.

Unit III

Introduction to MS-Word: Advantages of word processing, Creating, Saving and Editing a document: Selecting, Deleting, Replacing Text, Copying text to another file. Insert, Formatting Text and Paragraph, Using the Font, Dialog Box, Paragraph Formatting using



1

Pravin Bhandari
Arde
(Anuj Hundet)

Samman
Nave

Deep
(Dr. Umesh Singh)

Baxer
(Abhilasha Kumar)

Sharma
(Dr. S. K. Sharma)

Bullets and Numbering in Paragraphs, Use of Smart Art, Checking Spelling, Line spacing, Margins, Space before and after paragraph, Mail merge, customizing the ribbon.

Introduction to MS-Excel: Entering information: Numbers, Formula, Editing Data in a cell, Excel functions, using a Range with SUM, Moving and Copying data, Inserting and Deleting Row and Columns in the worksheet, Using the format Cells Dialog box, Using chart wizard to create a chart.

Introduction to MS-Power Point: Introduction to PowerPoint presentation, Slide show, Formatting, creating a Presentation, inserting Smart Arts, Adding Objects, Applying Transitions, Animation effects, Adding Tables, Charts and Media files.

Unit IV

Decision Support System: Importance of Decision support system, limitation, Characteristics of DSS, Decision Support and Structure of Decisions Making Decision Support and Repetitiveness of Decisions, DSS Users.

Expert Systems: Support for decision making phases, Support for the Intelligence Phase, Support for the Design Phase, Support for the Choice Phase, Decision Support and Alternative Concepts of Decision Making.

Management Information System: Introduction, Role of IT, MIS characteristics and application areas, Business and Technology trends-specialization, management by methodology, decentralization, internationalization etc.

Unit V

Internet: Meaning, Definitions, History, Internet protocols, TCP/IP, FTP, HTTP, URL. Internet Browsers, WWW Consortium, Search engines. Introduction to Internet Security terminology- network security, firewall, cryptography, password, biometrics, digital signature, digital certificate. Business applications of internet, e-mail, UseNet, newsgroup, telnet, intranet, extranet, e-ticketing, chatting.

E-Banking and its benefits: Smart Card, E-cash, Online financial Services Stock trading, E-brokering. E-business Model, Do-it-yourself model, Made-to-Order model, Information Service Model, Emerging hybrid models.

Text Books and Reference Books:

1. Computer Fundamentals by P.K. Sinha
2. Fundamentals of Information Technology by A. Leon & M. Leon
3. Computer Today by Suresh K. Basandra
4. Internet business models and Strategies by Afuah A. & Tucci C.
5. P C Software MS Office by Nitin K Nayak
6. MS-Office Interactive course by Greg Perry, Techmedia
7. MS Office Complete Reference TMH Publication.
8. Operating System: Achyut S. Godbole
9. Management Information systems by Gerald V. Post & David L. Anderson.
10. Understanding Computer Fundamentals & Dos by G.K. Iyer

Instruction to Paper Setter:

Question Paper should be framed in both English and Hindi version.



2

Registration
Arish
Amman
Dr. Umesh Prasad
Mhuber
Baxerl
Humar
Shrestha

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Yearly Syllabus for Undergraduates
As recommended by Central Board of Studies of Computer Application
Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh
Session 2017-18 onwards

B.A/B.Com/B.Sc. (Computer Application) First Year

Second Paper

Paper Code - CA-102
Paper Name - Desktop Publishing and Multimedia
Maximum Marks: 40

Course Objectives:

1. To review the basic concepts and functional knowledge in the field of computer application
2. To expose the students to computer application in the field of Business.

Unit I

Importance and Advantages of DTP, DTP Software and Hardware, Commercial DTP Packages, Page Layout programs, Introduction to Word Processing. Commercial DTP Packages, Difference between DTP Software and Word Processing Software.

Unit II

Types of Graphics, Uses of Computer Graphics Introduction to Graphics Programs, Font and Typefaces, Types of Fonts, Creation of Fonts (Photographer), Anatomy of Typefaces, Printers, Types of Printers used in DTP, Plotter, Scanner.

Unit III

History and Versions of PageMaker, Creating a New Page, Document Setup Dialog Box, Paper Size, Page Orientation, Margins, Different Methods of placing text and graphics in a document. Master Page, Story Editor, Formatting of Text, Indent, Leading, Hyphenation, Spelling Check, Creating Index, Text Wrap, Position (Superscript/Subscript), Control Palette.

Unit IV

History, Multimedia Elements; Text, Images, Sound, Animation and Video. Text, Concept of Plain Text and Formatted Text, RTF & HTML Text, Image, Importance of Graphics in Multimedia, Image Capturing Methods, Scanner, Digital Camera, Sound - Sound and its effect in Multimedia, Analog and Digital Sound, Animation, Basics, Principles and use of Animation. Video, Basics of Video, Analog and Digital Video.

Unit V

Features of Multimedia, Overview of Multimedia, Multimedia Software Tools, Multimedia Authoring - Production and Presentation, Graphic File Formats, MIDI - Overview, Concepts, Structure of MIDI, MIDI Devices, MIDI Messages.

leest
(Dr. Umesh Singh)

Pragya Pandey

@Umbar
(Chank)

Samman

Asy

(Mouhey)

Arde

Daxel

Shuman




Shrey

Text Books and reference books:

1. Desktop Publishing on PC by M. C. Sharma
2. Professional in Desktop Publishing by Dinesh Maldasani
3. DTP Courses 2/e by Singh & Singh
4. Multimedia, Computing, Communication & Applications by Ralf Steinmetz
5. Fundamentals of Multimedia by Ze-Nian Li
6. Page Maker – Manual
7. 'o' level module m3.2 Desktop publishing & Presentation graphics by V. K. Jain

Instruction to Paper Setter:

Question Paper should be framed in both English and Hindi version.



Ambar
(2 or 5 mark)
Rajesh Pandey

Sansani

Geog
(or Umesh Singh)

Shubay
Daxer

Had *Asy*

Kumar

Sharma



Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Yearly Syllabus for Undergraduates
As recommended by Central Board of Studies of Computer Application
Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh
Session 2017-18 onwards

B.A/B.Com/B.Sc. (Computer Application) First Year

Suggested list of exercises for practical

Maximum Marks: 50

MS-Word

1. Create a document and apply different Editing options.
2. Create Banner for your college.
3. Design a Greeting Card using Word Art for different festivals.
4. Create your Biodata and use page borders and shading. ✓
5. Create a document and insert header and footer, page title etc.
6. Implement Mail Merge.
7. Insert a table into a document.
8. Create a document and apply different formatting options.

MS Excel

1. Design your class Time Table.
2. Prepare a Mark Sheet of your class subjects.
3. Prepare a Salary Slip of an employee.
4. Prepare a bar chart & pie chart for analysis of Election Results.
5. Prepare a generic Bill of a Super Market.
6. Work on the following exercise on a Workbook:
 - a. Copy an existing Sheet
 - b. Rename the old Sheet
 - c. Insert a new Sheet into an existing Workbook
 - d. Delete the renamed Sheet.
7. Prepare an Attendance sheet of 10 students for any 6 subjects of your syllabus.
Calculate their total attendance, total percentage of attendance of each student & average of attendance.
8. Create a worksheet on Students list of any 4 faculties and perform following database functions on it.
 - a. Sort data by Name
 - b. Filter data by Class
 - c. Subtotal of no. of students by Class.



Rejendra Bandey

Ambar

Ammani

Asy

Umesh Singh

Arde

Mubey

Daxel

Ambar Singh

MS Power Point

1. Design a presentation of your institute using auto content wizard, design template and blank presentation.
2. Design a presentation illustrating insertion of pictures, word Art and clipart.
3. Design a presentation learn how to save it in different format, copying and opening an existing presentation.
4. Design a presentation illustrating insertion of movie, animation and sound.
5. Illustrate use of custom animation and slide transition (using different effects).
6. Design a presentation using charts and tables of the marks obtained in class.
7. Illustrate use of macro in text formatting in your presentation.

PageMaker

1. Create a Greeting Card for New Year.
2. Create a Visiting Card.
3. Create your Resume.
4. Create an advertisement for job in well-known firm.
5. Create a Newspaper Report.
6. Create a document by importing Graphic Image from Clip Art.
7. Create a Wedding Card.
8. Type a document using Story Editor.
9. Input a text from Word Document into a PageMaker document.
10. Create a document on Importance of Text Wrap, applying proper font size,



Rejishbandy

Samwani

beegh

Mubey
Baxet

Sumkaur

vij

Ards

Suman

Strawyer

Four
I

Department of Higher Education Govt. Of M.P.
Under Graduate year wise syllabus
As recommended by central board of studies and approved by
The governor of M.P.

BA, BSC, B.A., BSC,
B.COM(I) Year
Foundation

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन
स्नातक कक्षाओं के लिये वार्षिक पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र 2017-18

Class : B.A./B.Sc./B.Com./B.Sc. (Home Science)/BCA/B.A. (Mgt.) I Year

Subject : Foundation Course (आधार पाठ्यक्रम)

Paper : I

Title of Paper : हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य (Hindi Language & Moral Values)

Compulsory / Optional : Compulsory

Max. Marks : नियमित (Hindi Language = 25) + (Moral Values 05) + CCE 05 = 35

स्वाध्यायी = 35

Particulars / विवरण

Unit-I	हिन्दी भाषा 1. स्वतंत्रता पुकारती (कविता) - जटशंकर प्रसाद 2. पुष्प की अभिलाषा (कविता) - माखनलाल चतुर्वेदी 3. वाक्य संरचना और अशुद्धियां (संकलित)
Unit-II	हिन्दी भाषा 1. नमक का दरोगा (कहानी) - प्रेमचंद 2. एक थं राजा भोज (निबंध) - डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल 3. पर्यायवाची, वेलोम, एकार्थी, अनेकार्थी एवं शब्दयुग्म शब्द (संकलित)
Unit-III	हिन्दी भाषा 1. भगवान बुद्ध (निबंध) - स्वामी विवेकानंद 2. लोकतंत्र एक धर्म है (निबंध) - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3. नहीं रुकती है नदी - हीरालाल बाछोटिया 4. पल्लवन
Unit-IV	हिन्दी भाषा 1. अफसर (निबंध) - शरद जोशी 2. हमारी सांस्कृतिक एकता (निबंध) - रामधारी सिंह दिनकर (एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत) 3. संक्षेपण (संकलित)
Unit-V	नैतिक मूल्य 1. नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण (आलेख) - डॉ. शशि राय 2. आचरण की सम्यता (निबंध) - सरदार पूर्णसिंह 3. अंतर्ज्ञान और नैतिक जीवन (लेख) - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 4. अप्य दीपो भव (लेख) - स्वामी श्रद्धानंद

15.6.17
(डॉ. के. ए. म. मिश्र)

15-6-17
डॉ. प्रतिमा मादन
15/6/17
डा. अशा निरठा 21201111

15.6.17
प्रो. दिनेश कुशवाह



अंक विभाजन - नियमित विद्यार्थियों के लिए कुल 30 अंक

खण्ड-अ-प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $1 \times 5 = 5$

खण्ड-ब-इकाई एक से चार तक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न

आन्तरिक विकल्प के साथ $3 \times 3 = 9$

खंड --स--इकाई दो से पांच तक चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न $4 \times 4 = 16$

आन्तरिक विकल्प के साथ

स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए कुल 35 अंक

खण्ड - अ- प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $1 \times 5 = 5$


खण्ड - ब- इकाई एक से चार तक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न...


आन्तरिक विकल्प के साथ $3 \times 4 = 12$


खण्ड - स- इकाई दो से पांच तक चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न $4 \times 4 \frac{1}{2} = 18$

अतिरिक्त विकल्प के साथ

नोट - निर्धारित पाठ्यपुस्तक हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल से प्रकाशित।


15.6.17
(डॉ. के.के.जी.सिंह)


15.6.17
डॉ. प्रतिमा यादव
भोपाल
15-6-17
(डॉ. ऊषा किरण अग्रवाल)


15.6.17
प्रोफे. दिनेश कुशावाह



Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Syllabus for Under Graduate Annual Exam Pattern As recommended by Central
Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.
With effect from : 2017-18

Class : B.A./B.Sc/B.Com/B.Sc.(Home Science)/B.A.(Mgt.) BCA
Year : I
Subject : Foundation Course
Paper Name : English Language
Paper : II
Compulsory / Optional : Compulsory

Max. Marks : Marks : 30 + Internal assessment (5) = 35

Note : Max. Marks for private students shall be 35.

Particulars

UNIT - I

1. Where the mind is without fear : Rabindranath Tagore
2. The Hero: R.K. Narayan
3. Tryst with Destiny: Jawaharlal Nehru
4. Indian weavers: Sarojini Naidu
5. The portrait of a lady: Khushwant Singh
6. The Solitary Reaper: William Wordsworth

UNIT - II

Basic Language Skills: vocabulary, Synonyms, Antonyms, Word formation, Prefixes, Suffixes.

UNIT - III

Basic Language Skills: Uncountable nouns, verbs, tenses, adverbs.

UNIT - IV


Comprehension / Unseen Passage

UNIT - V

Composition and Paragraph writing.

Indira

For Indira
Dr. Rohit Trivedi



✓

Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Syllabus for Under Graduate Annual Exam Pattern As recommended by Central
Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.

With effect from : 2017-18

FORMAT OF QUESTION PAPER

Class : B.A./B.Sc/B.Com/B.Sc.(Home Science)/B.A.(Mgt.) BCA
Year : I
Subject : Foundation Course
Paper Name : English Language
Paper : II
Compulsory / Optional : Compulsory

Max. Marks : 30 + Internal assessment (5) = 35

Note : Max. Marks for private students shall be 35.

Ques. 1 Six objective type questions to be set any **four** to be attempted from the prescribed text (multiple choice, non-multiple choice, fill in the blanks)

1 x 4 = 4 marks

Ques. 2 Six short answer type to be set based on the lessons; **three** to be attempted

2x3=6 marks

Ques. 3 Basic Language Skills: vocabulary, Synonyms, Antonyms, Word formation, Prefixes, Suffixes, Confusing words, Misused words, Similar words with different meanings.

Basic Language Skills: Uncountable nouns, verbs, tenses, articles, adverbs.

(Ten items to be set **Eight** to be attempted)

8 marks

Long answer type question

Ques. 4 Comprehension / Unseen passage

6 marks

Ques 5 Paragraph Writing


(Three topics to be given **One** to be attempted)

6 marks



Distribution of marks for First Year Private Students

- Question 1. - 1 x 4 = 4.
- Question 2. - 3 x 3 = 9.
- Question 3. - 8.
- Question 4. - 7.
- Question 5. - 7.


 (Dr. Prakash Singh)
 Head
 J.S. (Hons)



Aditya

For
 Dr. K. S. J. Singh

AM

रत्नापाल
 डॉ. रत्ना दयाल

Fine India India
 India India

उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन

स्नातक कक्षाओं के लिये वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनमोदित

कक्षा - बी. ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. / बी. एस. सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष हेतु

सत्र - 2017-18 से लागू

विषय - आधार पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-तृतीय - उद्यमिता विकास

इकाई 1 - उद्यमिता विकास - अवधारणायें एवं महत्व, उद्यमी के कार्य, लक्ष्य निर्धारण, समस्या चुनौतियाँ एवं समाधान।

इकाई - 2 परियोजना प्रस्ताव - आवश्यकता एवं उद्देश्य- संगठन का स्वरूप, उत्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन एवं उपभोक्ता प्रबंधन।

इकाई -3 उद्यमिता हेतु नियामक संस्थाओं की भूमिका। विकासात्मक संस्थाओं की भूमिका, स्वरोजगार मूलक योजनायें, विभिन्न अनुदान योजनायें।

इकाई 4 परियोजना हेतु वित्तीय प्रबंधन- पूंजी अनुमान एवं व्यवस्था, लागत एवं मूल्य निर्धारण, लेखा-जोखा रखना।

इकाई -5 पूंजी संबंधी समस्यायें, पंजीकरण संबंधी समस्यायें, प्रशासकीय समस्यायें एवं उपरोक्त समस्याओं का समाधान।

For Ravi Trivedi

15.6.17

Rajpal
(डा. राजपाल राव) 15.6.17

India
Dr. Indira Javed.
15.6.17

15-6-17

डॉ. प्रतिभा यादव

15/6/17
प्रोफे. दिनेश कुमार

15.6.17
(डा. म. म. ज. मिश्र)



Shri Krishna Tripathi

Dr. P. S. Choudhary

Dr. Renu Mishra

31/3/17
15/6/17

Prof. J. S. Dubey

Department of higher education govt. of M.P.

Under graduate year wise syllabus

As recommended by central board of studies and approved by the governer of M.P.

Class – B.A./B.Com./ B.Sc./ B.Sc.(Home Scince) I Year

Subject – foundation Course

Session – 2017-18

Paper-3 Enterprenuership Development

Unit 1- Enterprenuership Development – Concept and importance , function of Enterprisar , Goal determination – Problems Challenges and solutions.

Unit -2 Project Proposal – need and Objects –Nature of organisation , Production Management, Financial Management , Marketing Management , Consumer Management .

Unit -3 Role of regulatory Institutions , Role of development Organisations , self employment oriented schems , Various growth Schemes .

Unit -4 Financial Managemet for Project –Financial institution and their role ,Capital estimation and arrangment,cost and price determination,accounting management

Unit -5 Problem of enterpreneour – Problem relating Capital, Problem relating Registration , administration problem and how to overcome from above problems .

Robit Trivedi
For Indira

Indira
Indira Jaiswal

Barpujari
CSA

Dr. Anshu Choudhary

15.6.17

प्रो. दिनेश कुशवाह

15-6-17
डा. प्रतिभा यादव

15.6.17

Shubha Tripathi

Dr. Renu Mishra



Note:-

01 नियमित विद्यार्थियों के लिए 25 अकों की सैद्धांतिक परीक्षा तथा 05 अकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा ।

02 स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए 30 अकों की सैद्धांतिक परीक्षा होगी ।

अंक विभाजन - नियमित विद्यार्थियों के लिए कुल 25 अंक

खण्ड -अ- प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $\frac{1}{2} \times 5 = 2.5$

प्रत्येक इकाई से एक लघु उत्तरीय प्रश्न.....आंतरिक विकल्प के साथ $1.5 \times 5 = 7.5$

खंड --स-- प्रत्येक इकाई से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न..... $3 \times 5 = 15$

आंतरिक विकल्प के साथ

स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए कुल 30 अंक

खण्ड -अ- प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $1 \times 5 = 5$

खंड 'ब- प्रत्येक इकाई से एक लघु उत्तरीय प्रश्न.....आंतरिक विकल्प के साथ $2 \times 5 = 10$

खंड --स-- प्रत्येक इकाई से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न..... $3 \times 5 = 15$

आंतरिक विकल्प के साथ

Marks distribution for paper setters:	for Regular students	for private students
Section A : Objective type	$\frac{1}{2} \times 5 = 2.5$	$1 \times 5 = 5$
Section B : Short Answer Type	$1 \frac{1}{2} \times 5 = 7.5$	$2 \times 5 = 10$
Section C : Long Answer Type	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$
Total	25	30

(Dr. Shikha Singh)

Dr. S. S. Singh

Dr. Himsha Trupathi

Dr. Himsha Trupathi

Dr. Poojaplate
Chotkeshy
member - Commerce Board

Indira
For Rohit

Dr. Himsha Trupathi

Dr. Himsha Trupathi

Commerce Board
Dr. Himsha Trupathi

Indira
Dr. Indira Javed

Dr. Himsha Trupathi



15.6.11
Dr. Himsha Trupathi

Subject/ विषय Economics/ अर्थशास्त्र

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार स्नातक पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली के तहत केन्द्रीय अध्ययन मंडल से अनुशंसित और मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Class/कक्षा : B.A./बी.ए./B.Sc./बी.एस.सी-द्वितीय

Title of subject Group : Macro Economics

Paper -I

विषय समूह का शीर्षक : समष्टि अर्थशास्त्र

Max.Marks/अधिकतम अंक : (नियमित छात्रों हेतु) : 42.5

Note/नोट : CCE -7.5

Max.Marks/अधिकतम अंक (स्वाध्यायी छात्रों हेतु) : 50

Paper I

Macro Economics समष्टि अर्थशास्त्र

Unit I – Concept of Macro Economics, Interrelation between Micro and Macro Economics, Macro variable – Stock and Flow, Circular flow of income, Concept of National Income, Gross National Product (G.N.P.) and Gross Domestic Product (G.D.P.) National Income Accounting, National Income and Economic Welfare.

इकाई 1: समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा— समष्टि और व्यक्ति अर्थशास्त्र के मध्य अंतर्संबंध। समष्टि चर—स्टॉक और प्रवाह। आय का चकीय प्रवाह। राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की अवधारणा। राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण।

Unit II – Classical theory of Employment, Keynesian theory of Employment - Aggregate Demand Function and Aggregate Supply Function , Effective Demand, Propensity to consume, save and invest, Principles of Multiplier and Accelerator.

इकाई 2: रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, किन्स का रोजगार सिद्धांत— समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन, प्रभावपूर्ण मांग। उपभोग, बचत और निवेश प्रवृत्ति, गुणांक और त्वरक के सिद्धांत।

Unit III – Investment Function and Marginal Efficiency of Capital (M.E.C.) Factors affecting Investment Function, Keynesian theory of Liquidity Preference and Liquidity Trap, Discounting Rate.



Rashmi Chandra
28.4.17
SKSHOM (SKShomy)
K. B. K. (G. B. K. K.)
R. K. Shomy
Shome 28/4
Shome 28/4
Shome 28/4

इकाई 3: निवेश फलन एवं पूंजी की सीमांत क्षमता (एम.इ.सी.) निवेश फलन को प्रभावित करने वाले तत्व, कीन्स का तरलता, पसंदगी का सिद्धांत और तरलता जाल, बट्टे की दर।

Unit IV – Money;- Meaning and Functions, Stock of Money and its measures- M_1 , M_2 , M_3 , M_4 , Quantity Theory of Money- Cash Transaction and Cash Balance Approach, Inflation, Deflation and Recession- Definition ,causes and effects of various segments of economy.

इकाई 4: मुद्रा- अर्थ और कार्य, मुद्रा का स्टॉक और उसके मापन M_1 , M_2 , M_3 , M_4 . मुद्रा के परिमाण सिद्धांत – नकद व्यवहार और नकद शेष सिद्धांत। मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन और मंदी – परिभाषा, कारण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव।

Unit V – Bank – Meaning and types, Central Bank and its functions with special reference to Reserve Bank of India , Credit Control- Qualitative and Quantitative Methods, Objectives and limitations of Monetary Policy, Functions of Commercial Banks, Process of credit creation. MUDRA and Jan Dhan Yojana.

इकाई 5: बैंक – अर्थ और प्रकार, केन्द्रीय बैंक और उसके कार्य (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विशेष संदर्भ में) साख नियंत्रण- गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियां, मौद्रिक नीति के उद्देश्य और सीमाएं, व्यापारिक बैंक के कार्य, साख निर्माण की प्रक्रिया। मुद्रा (MUDRA) एवं जन धन योजना।

Recommended Books :

Heijdra B J and Ploeg F V : Foundation of Modern Macro Economics. Oxford University Press.

Lewis M K and Mizan P D : Monetary economics. Oxford University Press. New Delhi

Hanson A H : A Guide to Keynes. Mc Graw Hill. Newyork


Gupta S B : Monetary Economics. S Chand New delhi.


एम एल डिंगन : समष्टि अर्थशास्त्र


खिमेसर एवं पवार : मुद्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र


डॉ रामरतन शर्मा : अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं वित्त


मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के नवीनतम प्रकाशन



28/4/17
(Dr. A. K. Tripathi)


28.4.17
(S. S. Choudhary)



SK Sharma
(S. K. Sharma)



S. P. Singh



R. K. Sharma



S. H. Anand
(S. H. Anand)


(K. D. Sharma)


Reshmi Chugh


Manisha Pathak


Dr. H. B. Gupta


S. K. Sharma


Dr. H. B. Gupta



Subject/ विषय Economics/ अर्थशास्त्र

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार स्नातक पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली के तहत केन्द्रीय अध्ययन मंडल से अनुशंसित और मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Class/कक्षा : B.A./बी.ए./B.Sc./बी.एस.सी. II

Title of Subject Group : Public Finance and International Economics.

Paper -II

विषय समूह का शीर्षक : सार्वजनिक वित्त एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

Max.Marks/अधिकतम अंक : (नियमित छात्रों हेतु) : 42.5

Note/नोट : CCE -7.5

Max.Marks/अधिकतम अंक (स्वाध्यायी छात्रों हेतु) : 50

Paper II**Public Finance and International Economics. सार्वजनिक वित्त एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र**

Unit I – Public Finance- Meaning, Nature and Scope. Public, Private and Merit goods, Principle of Maximum Social Advantage, Sources of Revenue, Tax Revenue and Non Tax Revenue, Kinds of Taxes- Direct and Indirect. Goods and Services Tax(G.S.T.), Taxable Capacity in India.

इकाई 1: सार्वजनिक वित्त- अर्थ, प्रकृति, और क्षेत्र, सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तुएँ, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, आगम के स्रोत- कर आगम एवं गैर कर आगम, करों के प्रकार- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), भारतवर्ष में करदान क्षमता ।

Unit II – Budget- Definition and Preparation, Fiscal Deficit , Fiscal Policy, Deficit Finance, Central- State Financial Relation, Recommendations of Latest Finance Commission.

इकाई 2: बजट- परिभाषा और निर्माण, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय नीति, हीनार्थ प्रबंधन केन्द्र - राज्य वित्तीय संबंध, नवीनतम वित्त आयोग की अनुशंसाएँ।

Unit III – Meaning and importance of International Economics, Intra and International Trade, importance of International Trade in Economic Development. Theories of International Trade :- Absolute and Comparative Advantage, Factor endowment :- Heckscher- Ohlin.



② Kusum Rastogi
Rashmi
28.4.19

Shweta 28/4/19
SKSHU

Meera
Meera Pithay
(Sriharshini)

28.4.19
4.3
Anurag

इकाई 3: अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ और महत्व, अर्थ और अंतराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास में अंतराष्ट्रीय व्यापार का महत्व, अंतराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, निरपेक्ष और तुलनात्मक लाभ, साधन प्रचुरता हेक्शघर ओहलिन।

Unit IV Terms of Trade- Concepts and Types, Tariff and Non-Tariff in International Trade. World Trade Organization (W.T.O.) Objectives and its functions. Balance of Trade. Concept and Types. Compositions and Structure of Balance of Trade (B.O.T), and its relationship with Balance of Payment. Methods of Correction of Imbalance of Payment, International Capital Movement.

इकाई 4: व्यापार की शर्तें, संकल्पना और प्रकार, अंतराष्ट्रीय व्यापार की प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाएं, विश्व व्यापार संगठन (WTO) उद्देश्य और कार्य, भुगतान शेष- संकल्पना और प्रकार, व्यापार शेष की संरचना और घटक तथा भुगतान संतुलन के साथ संबंध, भुगतान असंतुलन में सुधार के तरीके, अंतराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह

Unit V – Trends and directions of India's foreign trade, Exchange rate. Theories of Exchange Rate, Mint Par Parity Theory, Purchasing Power Parity Theory. Concept of Appreciation and Depreciation of Currency and its effects on Foreign Trade.

इकाई 5: भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति एवं दिशा, विनिमय दर: विनिमय दर के सिद्धांत – टकसाली दर समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, मुद्रा का अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन एवं विदेशी व्यापार पर प्रभाव।

Recommended Books :

H G Mannur : International Economics.

Kindleberger : International Economics.

डॉ रामरतन शर्मा : अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं वित्त

वी सी सिन्हा : लोक वित्त

एच एल भाटिया : लोक वित्त

वी पी त्यागी : लोक वित्त

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के नवीनतम प्रकाशन



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Shantaram, Kusum Rastogi, Rashi, Manish, and others, along with dates and other markings.

Department of Higher Education, Govt. of M. P. Under Graduate Unified Syllabus for B.A.
Three Year Degree Course as recommended by Central Board of Studies and approved by the
Governor of M. P.

उच्च शिक्षा विभाग म० प्र० शासन
स्नातक स्तर की बी० ए० उपाधि के एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अध्ययन मण्डल
द्वारा अनुशंसित तथा म० प्र० के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र 2020-21 से प्रभावशील

Note: The syllabus of B.A. Part-II consists of two theory papers of 40 marks each and there will be 20 marks for the Internal Assessment. Out of the 20 marks allocated for the Internal Assessment, 10 marks will be given after three month and 10 marks will be given after six month of the course.

Subject : English Literature
Class : B.A. Part- II
Paper : I
Title : DRAMA
Maximum Marks : 40

The scheme of examination and the allotment of marks shall be as under:-

Section A	Objective Type Questions (At least one question to be set from each unit)	1X5 = 5 Marks
Section B	Short Answer Type Questions (Annotations) Ten questions (Minimum two from each unit) to be set from Unit II, III, IV & V and five to be attempted.	2X5 = 10 Marks
Section C	Long Answer Type Questions Ten questions(two from each unit) to be set from unit I, II, III, IV & V and five to be attempted.	5X5 = 25 Marks
TOTAL		40 Marks

Unit-I	Drama and its forms The Renaissance: Elizabethan and Jacobean Drama Twentieth Century Drama
Unit-II	William Shakespeare : King Lear The Tempest
Unit-III	Henric Ibsen : A Doll's House



V. S. K. K.

(Prof. Abhishek Chandra)

A. S. Chandra

(Prof. Neeraj Anand)

(Dr. Vikas Jaiswal)

(Prof. Anand)

(Dr. A. S. Rathor)

(Dr. M. S. Bhatnagar)

(Dr. M. S. Bhatnagar)

Unit-IV	John Osborne : Look Back in Anger
Unit-V	Samuel Becket : Waiting for Godot

Books & References

Bradley A.C. , Shakespearean Tragedy, Penguin, Random House

Iyengar K.R.S , Indian Writing in English, Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Sengupta S.C. , Shakespearean Comedy

Brodbery Malcolm: Comic Transformation in Shakespeare, OUP, London.

Alok
 03/06/2019
 (Prof. Alok Chandra)

Dr. Neeraj Agnihotri
 03/06/19
 (Dr. Neeraj Agnihotri)

Dr. Vikas Jaiswal
 03/06/19
 (Dr. Vikas Jaiswal)

Dr. S. Pathak
 3-6-19
 (Dr. S. Pathak)

Dr. Ashok Sachdev
 3/6/19
 (Dr. Ashok Sachdev)

Dr. Virendra Chelvi

Bha
 03/06/19
 Dr. M.S. Bharati Bha

Alok
 Dr. Rohit Tripathi



Department of Higher Education, Govt. of M. P. Under Graduate Unified Syllabus for B.A.
Three Year Degree Course as recommended by Central Board of Studies and approved by the
Governor of M. P.

उच्च शिक्षा विभाग म० प्र० शासन
स्नातक स्तर की बी० ए० उपाधि के एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा
अनुमोदित तथा म० प्र० के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र 2020-21 से प्रभावशील

Note: The syllabus of B.A. Part-II consists of two theory papers of 40 marks each and there will be 20 marks for the Internal Assessment. Out of the 20 marks allocated for the Internal Assessment, 10 marks will be given after three month and 10 marks will be given after six month of the course.

Subject : English Literature
Class : B.A. Part- II
Paper : II
Title : FICTION
Maximum Marks : 40

The scheme of examination and the allotment of marks shall be as under:-

Section A	Objective Type Questions (At least one question to be set from each unit)	1X5 = 5 Marks
Section B	Short Answer Type Questions Two questions to be set from each unit and one from each unit to be attempted.	2X5 = 10 Marks
Section C	Long Answer Type Questions Two questions to be set from each unit and one from each unit to be attempted.	5X5 = 25 Marks
TOTAL		40 Marks

Unit-I	Henry Fielding : Tom Jones
Unit-II	Jane Austen : Pride and Prejudice
Unit-III	Charles Dickens : Hard Times
Unit-IV	Thomas Hardy : Tess of the d'Urbervilles
Unit-V	Virginia Woolf : Mrs Dalloway



Handwritten signature

Handwritten signature: Alok Chandra
03/06/2019

Handwritten signature: Dr. Neeraj Singh

Handwritten signature: Dr. Vikas Jadhav
03/06/19

Handwritten signature: Dr. Mrs. Rathi
3-6-19

Handwritten signature: Dr. Mrs. Bharati Bhanu
03/06/19

Handwritten signature: Dr. Ashok Singh

Handwritten signature: Dr. Rohit Trivedi

BOOKS & References

Forster E.M., Aspects of the Novel,

Naik M.K. A History of Indian English Literature

B. Prasad, A Background to the study of English Literature, Macmillan

Saintsbury, G. Short History of English Literature, London, J.M. Dent & Sons, 1928

Legouis, E. Short History of English Literature, OUP, 1976

Abrahams M.H., A Glossary of Literary Terms, Bangalore, Prism Books Pvt. Ltd. 1993

Hudson W.H. An outline History of English Literature

J.A. Cuddon: Dictionary of Literary Terms , Penguin Edition.

Daiches David: A Critical History of English Literature, Volume I & II

(Prof. Atok Chandra) 03/06/19
 (Dr. Neeraj Agnihotri) 03/06/19
 (Dr. Vikas Jaiswal) 03/06/19
 Dr. S. Kumar
 Dr. Ms. Bharati Bha
 03/06/19
 Dr. Ar. Ashutosh Tripathi
 Dr. Ar. Ashutosh Tripathi
 Dr. Ar. Ashutosh Tripathi



Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Yearly Syllabus for Undergraduates
As recommended by Central Board of Studies of Computer Application
Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh
Session 2017-18 onwards

B.A/B.Com/B.Sc. (Computer Application) Second Year

First Paper

Paper Code - CA-201
Paper Name - Internet and E-Commerce

Maximum Marks: 40

Course Objectives:

1. To review the basic concepts and functional knowledge in the field of computer application.
2. To expose the students to computer application in the field of Business.

Unit I

Internet: Evolution, Concepts, Growth of Internet, ISP, ISP in India, Types of connectivity, Dial-up, leased line, DSL, Broadband, RF, VSAT etc., Methods of sharing of Internet connection, Use of proxy server.

Internet Services: USENET, GOPHER, WAIS, ARCHIE and VERONICA, IRC, Concept of Search Engines, Search engines types, searching the Web, Web Servers, TCP/IP and other main protocols used on the Web.

E-Mail: Concepts of e-mailing, POP and WEB Based E-mail, merits, address, Basics of Sending & Receiving, E-mail Protocols, Mailing List, Free E-mail services, e-mail servers and e-mail client programs.

Unit II

Introduction to E-Commerce: Emergence of the Internet, Commercial use of the Internet, Emergence of World Wide Web, Advantages and Disadvantages of E-Commerce, Transition to E-Commerce in India, E-Commerce opportunities for Industries.

Unit III

Models: Business Models for E-commerce, Models based on Relationship of Transaction parties: B2C, B2B, C2C, C2B; Models based on the Relationship of Transaction types, Brokerage Model, Aggregator Model, Infomediary Model, Community Model, Value Chain Model, Manufacturer Model, Advertising Model, Subscription Model, Affiliate Model.

Unit IV

E-Marketing versus Traditional Marketing: Identifying Web Presence Goals, Browsing Behavior Model, Online Marketing, E-advertising, Internet Marketing Trends, E-branding and E-Marketing strategies.

Unit V

E-Security: Information system security, security on the internet, E-business risk management issues, information security environment in India.



② Umbar
Rajendra
Aad

Samant
Aad

Lee & Co. Umbar Singh
Humar

Umbar
Baxal

7
Trivedi

E-Payment Systems: Digital payment requirements, Digital Token based e-paymentsystems, properties of Electronic cash, risk and e-payment systems and designing e-payment systems.

Secure Business, Web store, Online Payment, Internet Banking. Security- E-commerce security issues, Cryptography, Digital Signature & Authentication protocol, Digital Certificates. Online Security, Secure Electronic Transaction (SET) .

Text Books and reference books:

1. Internet for Everyone by AlexinLeon and Mathews Leon
2. Doing Business on the Internet: E-Commerce by S. Jaiswal
3. E-Business and E-commerce Management, 3rd Edition by Pearson Education
4. E-Commerce: An Indian Perspective, 2nd Edition by P.T. Joseph
5. Introduction to E-Commerce by Zheng Qin
6. E-commerce Development: Business to Business by WP Publishers
7. Frontiers of Electronic Commerce by R. Kalakota
8. E-business: Roadmap for success by R. Kalakota
9. Electronic Commerce by Gary P. Schneider
10. The E-Business Revolution by Daniel Amor

Instruction to Paper Setter:

Question Paper should be framed in both English and Hindi version.

Rejishbandy
@msbham

Samwani
M. Jy
Hansa

leegh
(Dr. Umesh Singh)

Arde

Mouhey
Daxel

8
Krupa



Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Yearly Syllabus for Undergraduates
As recommended by Central Board of Studies of Computer Application
Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh
Session 2017-18 onwards

B.A/B.Com/B.Sc. (Computer Application) Second Year

Second Paper

Paper Code - CA-202
Paper Name - Relational Database Management System

Maximum Marks: 40

Course Objectives:

1. To review the basic concepts and functional knowledge in the field of computer application
2. To expose the students to computer application in the field of Business.

Unit I

Evolution of Databasetechnology, File-Oriented System, Database System, Client Server Platforms.Database System in the Organization: Databases and Data sharing, Strategicdatabase planning, Management control, Risks and cost of database, Logical andPhysical data representation.

Unit II

Database Development Life Cycle(DDLC), Principles ofConceptual Database Design, Objects, Specialization, Generalization, Relationship, Cardinality, Attributes.Relational data model: Fundamental Concepts, Normalization process (1NF, 2NF,3NF, BCNF, 4NF), Transforming Conceptual Model to a Relational Model.

Unit III

Relational Algebra, Relationalimplementation with SQL, Introduction, Data Definition language (DDL), DataManipulation Language (DML), Data Control Language (DCL), Transaction Control Language(TCL), Schema and table definition, SQL functions: Mathematicalfunctions, Group functions, View definition: Introduction, Command to create a VIEW.

Unit IV

Physical, storage media, Disk performance factors Datastorage format file organization and addressing methods implementing, Managingthe Data base environment - Database administration and control, DBA functions,goals, integrity, security and recovery.

Unit V

Introduction to SQL: Components of SQL, DDL, DML, Query Language, DCL, TCL, SCL etc. Invoking sql*plus. The oracle data types two dimensional matrix creation. Insertion,

Rejishbandy
@university
Arun

Banmani
Miy

leegs
(Dr. Umesh Singh)

(Mhowbey)

Arde

Group of
Baxer



update, deletion operations, the many faces of SELECT command, creating tables using query, inserting data using query, modifying the structure of tables, renaming tables, dropping tables, dropping columns, logical operators, range searching, pattern matching, use of Alias, Oracle Functions. Accessing data from multiple tables. Set operations: Union, Intersect, Minus. Data Constraints: I/O constraints, Business Rule constraints. Grouping data from tables. Joins: Equi-join, Self-join, Sub-Queries. Views, Sequences, Synonyms, use of savepoint, ROLLBACK&COMMIT commands, creating user accounts, granting permission, revoking permission.

Text Books and Reference Books:

1. Database Management & Design by G. W. Hansen & J. V. Hansen
2. Database System Concepts by Silberschqtz, Korth&Sudarshan
3. SQL, PL/SQL: The Programming Language of Oracle by Ivan Byross
4. Introduction to Database Systems by C. J. Date
5. Oracle: The Complete Reference by Oracle Press
6. SQL/PL-SQL by P. S. Deshpande

Instruction to Paper Setter:

Question Paper should be framed in both English and Hindi version.

Rajesh Bandyopadhyay *Samant* *Deed*
(Dr. Umesh Singh)
A. Choubey *Asif* *Arde* *Baxer*
Shankar *Hunar*



Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Yearly Syllabus for Undergraduates
As recommended by Central Board of Studies of Computer Application
Approved by H E the Governor of Madhya Pradesh
Session 2017-18 onwards

B.A/B.Com/B.Sc. (Computer Application) Second Year

Suggested list of exercises for practical

Maximum Marks: 50

Internet and E-Commerce

1. To set and change computer name.
2. To set and change work group name.
3. To include web-site in your favorite.
4. To un-hide pop-up block.
5. To show default workgroup name.
6. To set default workgroup name.
7. To set default gateways.
8. To identify IP address.
9. To set URL as home page.
10. To set IP address and subnet mask.
11. To view network connection.
12. To change font size of web content.
13. To view the coding of web page.
14. To enable/disable firewall.
15. To turn on and turn off automatic updates.
16. To create e-mail account.
17. To send e-mail.
18. To add name in address book.

SQL

1. Create table for student information like name, age, add, phone, class, college, etc.
Using
2. Create table command.



Sumitran
Rajendra
Chaudhary

Sanwani
Arif


leosh
(Dr. Umesh Singh)
Arde

Baxeri

11

Sharma
Sharma

3. Insert data into tables using both types of insert commands.
4. Add another column into database using modify command.
5. Select particular type of data using select command using like, functions etc.
6. Create another table from old table.
7. Run commands like DROP table, ROLLBACK, EDIT, DESC, /, etc.
8. Apply nested queries by joining two tables & select particular data item from both tables.
9. Arrange columns data items in ascending or descending order.
10. Create view & Indexes on table.
11. Join tables using join Command.
12. Create client table with following fields-cid, cname, cadd, city, state and insert 10 records
13. Create customer table with following fields-cust_id, cust_name, cust_add, city, state and insert 10 records and apply the following constraints *NOT NULL, *Primary Key, *Check Constraint, *Unique
14. Select two fields from the table using following clauses *Order by, *Distinct.
15. Select fields from the table and apply oracle functions like *AVG(), *MAX(), *MIN(), *COUNT(), *ABS(), *POWER(), *ROUND()
16. Apply the WHERE clause on Client(cid, cname, salary, cadd, city, state) table with 1.SELECT 2. DELETE 3. To insert data into some other table.
17. Create a table and apply ALTER TABLE command on the table.
18. Retrieve client information like cust_id, cust_name, city for customers where field city= Delhi or Baroda.
19. Create tables and relate them by using foreign key and reference table.



Rejishbandey

Banwani

*Chugh
(Dr. Umakant Singh)*

Daxer

*Choubey
Gumhar*

*Arif
Suman*

Arad

12

Sharma



Department of Higher Education Govt. Of M.P.
Under Graduate year wise syllabus
As recommended by central board of studies and approved by
The governor of M.P.

B.Com(II) 70
B.Com / B.A, B.Sc
(Foundation)
II year

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शारान
स्नातक कक्षाओं के लिये वार्षिक पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित
सत्र 2018-19

Class : B.A./B.Sc./B.Com./B.Sc. (Home Science)/BCA/B.A.(Mgt.) II Year
Subject : Foundation Course (आधार पाठ्यक्रम)
Paper : I
Title of Paper : हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य (Hindi Language & Moral Values)
Compulsory / Optional : Compulsory
Max. Marks : नियमित (Hindi Language = 25) + (Moral Values 05) + CCE 05 = 35
स्वाध्यायी = 35

Particulars / विवरण

Unit-I	हिन्दी भाषा 1. वह तोड़ती पत्थर (कविता) – सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 2. दिमागी गुलामी (निबंध) – राहुल सांकृत्यायन 3. वर्ण – विचार (स्वर-व्यंजन, वर्गीकरण, उच्चारण स्थान)
Unit-II	हिन्दी भाषा 1. नारीत्व का अभिशाप (निबंध) – महादेवी वर्मा 2. चीफ की दावत (कहानी) – भीष्म साहनी 3. विराम चिन्ह – (संकलित)
Unit-III	हिन्दी भाषा 1. चली फगुनाहट बौरै आम (ललित निबंध) – विवेकी राय 2. इन्द्रधनुष का रहस्य (वैज्ञानिक लेख) – डॉ. कपूरमल जैन 3. संधि (संकलित)
Unit-IV	हिन्दी भाषा 1. सपनों की उड़ान (प्रेरक निबंध) – ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2. हमारा सौर मण्डल (संकलित) 3. प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार (संकलित) 4. समास (संकलित)
Unit-V	नैतिक मूल्य 1. शिकागो व्याख्यान (व्याख्यान) – स्वामी विवेकानंद 2. धर्म और राष्ट्रवाद – (लेख) महर्षि अरविन्द 3. सादगी (आत्मकथा) – महात्मा गाँधी 4. चित्त जहाँ भय शून्य (कविता) – रवीन्द्रनाथ टैगोर

15.6.17
(डॉ. के.जी. मिश्र)

15-6-17 15-6-17
डॉ. प्रतिभा यादव

15/6/17

प्रो. केशव कुशवाह (डॉ. कृष्ण किरण मदनगर)



अंक विभाजन - नियमित विद्यार्थियों के लिए कुल 30 अंक

खण्ड-अ-प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $1 \times 5 = 5$

खण्ड-ब-इकाई एक से चार तक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न

आन्तरिक विकल्प के साथ $3 \times 3 = 9$

खण्ड --स-- इकाई दो से पांच तक चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न $4 \times 4 = 16$

आन्तरिक विकल्प के साथ

स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए कुल 35 अंक

खण्ड - अ- प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $1 \times 5 = 5$


खण्ड - ब- इकाई एक से चार तक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न....


आन्तरिक विकल्प के साथ $3 \times 4 = 12$

खण्ड - स- इकाई दो से पांच तक चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न $4 \times 4 \frac{1}{2} = 18$

अतिरिक्त विकल्प के साथ

नोट - निर्धारित पाठ्यपुस्तक हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल से प्रकाशित।


15-6-17
(डॉ. के. ए. मिश्र)


15-6-17
प्रो. दिनेश कुशवाह
15-6-17
डॉ. प्रतीमा यादव

दिनांक
15/6/17
डॉ. उषा किशोर मदनकर



Department of Higher Education, Govt. of M.P.
Syllabus for Under Graduate Annual Exam Pattern As recommended by Central
Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.
With effect from : 2018-19

Class	:	B.A./B.Sc/B.Com/B.Sc.(Home Science)/B.A.(Mgt.) BCA
Year	:	II
Subject	:	Foundation Course
Paper Name	:	English Language
Paper	:	II
Compulsory / Optional	:	Compulsory

Max. Marks : 30 + Internal assessment (5) = 35

Note : Max. Marks for private students shall be 35.

Particulars

UNIT - I

- 1 Tree : Tina Morris
- 2 Night of the Scorpion : Nissim Ezekiel
- 3 Idgah : Premchand (translated by Khushwant Singh)
- 4 Letter to God : G.L.Swanteh (translated by Donald A.Yates)
- 5 My Bank Account : Stephen Leacock
- 6 God sees the truth but waits: Leo Tolstoy

UNIT - II

Basic English Language : Idioms, Proverbs and Phrasal Verbs, Tenses, Prepositions,
Determiners, Verbs, Articles, Nouns & Pronouns.

UNIT - III

1. Short Essay on given topics
2. Correspondence Skills (formal & Informal letters and Application)

UNIT - IV

Translation of sentences / passage English to Hindi and Hindi to English.

UNIT - V



(प्रो. रमेश कुमार शर्मा)

(प्रो. रमेश कुमार शर्मा)

(प्रो. रमेश कुमार शर्मा)

Department of Higher Education, Govt. of M.P.

Syllabus for Under Graduate Annual Exam Pattern As recommended by Central Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.

With effect from : 2018-19

FORMAT OF QUESTION PAPER

Class : B.A./B.Sc./B.Com./B.Sc.(Home Science)/B.A.(Mgt.) BCA
Year : II
Subject : Foundation Course
Paper Name : English Language
Paper : II
Compulsory / Optional : Compulsory

Max. Marks : 30 + Internal assessment (5) = 35

Note : Max. Marks for private students shall be 35.

Ques. 1 Six objective type questions to be set any four to be attempted (multiple choice, non multiple choice, fill in the blanks) 1 x 4 = 4 marks

Ques. 2 Six short answer type to be set based on the lessons three to be attempted 2x3=6 marks

Ques 3 Basic English Language : Tenses, Prepositions, Determiners, Verbs, Articles, Nouns & Pronouns, Idioms, Proverbs and Phrasal Verbs. 8 marks

Ques 4 Short essay on any one of the topics (1 out of 3). 6 marks

OR

Letter / Application

Ques 5 Translation of sentences / passage English to Hindi and Hindi to English. 6 marks

(सं. २०१८-१९)
n. a.m.

अ. २०१८-१९

अ. २०१८-१९

अ. २०१८-१९



Distribution of marks for Second Year Private Students

Question 1. - 1 x 4 = 4.

Question 2. - 3 x 3 = 9.

Question 3. - 8.

Question 4. - 6.

Question 5. - 8.



Dr. M. S. Jaiswal
Principal

Dr. S. P. Mishra
Head

Dr. M. S. Jaiswal
Principal

Dr. R. S. Jaiswal
Principal

Dr. M. S.

Dr. S. P.

Dr. M. S.

Dr. R. S.

Department of Higher Education, Govt. of M. P.
Under Graduate Semester wise Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and Approved by the
Governor of M. P.
Session 2018-19

उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन
स्तातक कक्षाओं के लिये सेमेस्टर अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म. प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

कक्षा --बी.ए./बी.एस.सी/बी.काम/बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) II Year
विषय -- आधार पाठ्यक्रम
पेपर तृतीय- III -- पर्यावरणीय अध्ययन

Max. Marks : theory 25+05 (CCE)

इकाई 1 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय अध्ययन

- (क) परिभाषा एवं महत्व
(ख) जनभागीदारी एवं जन जागरण
(ग) पारिस्थितिकी- प्रस्तावना
(घ) पारिस्थितिक तन्त्र- अवधारणा, घटक, संरचना तथा कार्यप्रणाली ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड तथा प्रकार।

इकाई 2 पर्यावरणीय प्रदूषण तथा जनसंख्या

- (क) वायु, जल, ध्वनि, ताप एवं आणविक प्रदूषण- परिभाषा प्रदूषण के कारण प्रभाव एवं रोकथाम।
(ख) जनसंख्या- वृद्धि, राष्ट्रों के बीच अन्तर।
(ग) जनसंख्या- विस्फोट, परिवार कल्याण कार्यक्रम।
(घ) पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य।
(ङ) स्वच्छता एवं घरेलू कचरे का निष्पादन।

इकाई 3 प्राकृतिक संसाधन, समस्याएँ तथा संरक्षण

- (क) जल संसाधन
(ख) वन संसाधन
(ग) भूमि संसाधन
(घ) खाद्य संसाधन
(ङ) ऊर्जा संसाधन

15.6.17
प्रोफे. दिनेश कुशवाह



15.6.17
(डी०के०पी० मिश्र)
15-6-17
डा. प्रतिभा थापन

15/6/17
डा. ऊषा किरण मन्नाहर

16/17
(मिश्र)

इकाई 4 जैव विविधता और उसका संरक्षण

- (क) प्रस्तावना: अनुवांषिक, जातीय तथा पारिस्थितिक विविधता
(ख) जैव विविधता का मूल्य- उपभोग्य उपयोग,
3 उत्पादक उपयोग सामाजिक, नैतिक तथा सौन्दर्यगत मूल्य
(ग) वृहत जैवविविधता केन्द्र के राष्ट्र रूप में भारत, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता।
(घ) जैव विविधता के खतरे- आवासीय हानि, वन्य जीवन में अनाधिकार घुसपैठ तथा मानव वन्य जीवन-संघर्ष

इकाई 5 आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण कानून

- (क) आपदा प्रबंधन-- बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं भूस्खलन
(ख) वायु तथा जल प्रदूषण- संरक्षण कानून
(ग) वन्य प्राणी संरक्षण कानून
(घ) पर्यावरण तथा स्वास्थ्य रक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका।


संदर्भ पुस्तक- मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तक।


अंक विभाजन - नियमित विद्यार्थियों के लिए कुल 25 अंक

- खण्ड अ - प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $\frac{1}{2} \times 5 = 2.5$
खण्ड ब - प्रत्येक इकाई से एक लघु उत्तरीय प्रश्न - आंतरिक विकल्प के साथ $1.5 \times 5 = 7.5$
खण्ड स- प्रत्येक इकाई से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न $3 \times 5 = 15$
आंतरिक विकल्प के साथ

स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए कुल 30 अंक

- खण्ड अ - प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न $1 \times 5 = 5$
खण्ड ब -- प्रत्येक इकाई से एक लघु उत्तरीय प्रश्न - आंतरिक विकल्प के साथ $2 \times 5 = 10$
खण्ड स- प्रत्येक इकाई से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न $3 \times 5 = 15$
आंतरिक विकल्प के साथ



15.6.17
प्रोफे. दिनेश कुमार


15.6.17
(डी०के०पी०मि०)

डेनिस
15/6/17
की उपा. विरमा

15-6-17
डॉ. प्रतिभा मादग




15/6/17
Dr. Renu Mishra

Department of Higher Education, Govt. of M. P.
Under Graduate Semester wise Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and Approved by HE the
Governor or M. P.
With effect from : 2018-19

Class : B.A./B.Sc./B.Com./B.Sc. (Home Science)/B.A. (Mgt.)/BCA
Year : II
Subject : Foundation Course
Paper Title : Paper III : Environmental Studies

Max. Marks : 25+05 CCE.

Unit I Study of Environment and Ecology

- (a) Definition and importance.
- (b) Public participation and public awareness.
- (c) Ecology – Introduction
- (d) Ecosystem – Concepts, components, structure & function, energy flow, food chain, food web, ecological pyramids and types.

Unit II Environmental Pollution and Population

- (a) Air, water, noise, heat and nuclear pollution -- definition, causes, effect and prevention of pollution.
- (b) Population growth, disparities between countries.
- (c) Population explosion, family welfare programme.
- (d) Environment and human health.
- (e) Cleanliness and disposal of domestic waste.

Unit III Natural resources, Problems and Conservation

- (a) Water resources
- (b) Forest resources
- (c) Land resources
- (d) Food resources
- (e) Energy resources

Unit IV Bio-diversity and its Protection

- (a) Introduction-Genetic, species and ecosystem diversity.
- (b) Value of bio-diversity- Consumable use: Productive use, Social, Moral and Aesthetic values.
- (c) India as a nation of mega bio-diversity centre, bio-diversity at national and local levels.
- (d) Threats to bio-diversity -- Loss of habitat, poaching of wildlife, man and wildlife conflicts.

[Signature]
15.6.17
प्रो. दिनेश कुशवाह

[Signature]
15.6.17
(श्री. के. ए. मिश्र)
15.6.17
डा. प्रतिभा शर्मा

[Signature]
15/6/17
श्री. अनामिका शर्मा


[Signature]
15/6/17
Dr. Renu Mishra





Unit V Disaster Management and Environmental laws


- Disaster Management- flood, earthquake, cyclones and landslides.
- Conservation of laws for air and water pollution.
- Wildlife conservation laws.
- Role of information technology in protecting environment and health.

Marks distribution for paper setters:	for Regular students	for Private students
Section A: Objective type	$\frac{1}{2} \times 5 = 2.5$	$1 \times 5 = 5$
Section B: Short Answer type	$1 \frac{1}{2} \times 5 = 7.5$	$2 \times 5 = 10$
Section C: Long Answer type	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$
Total	25	30


15.6.17
डॉ. रेणु मिश्रा


15.6.17
(डॉ. प्रतीमा यादव)


15.6.17
डॉ. रेणु मिश्रा


15/6/17
(Dr. Renu Mishra)

